



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 41

जनवरी 30, 2026

संख्या 5

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2025	2026		घट - बढ़	
	जनवरी 24	जनवरी 16	जनवरी 23	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3564306	3942212	3960205	17994	395899
1.1 संचलन में नोट	3564296	3942195	3960191	17996	395895
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	10	16	14	-3	4
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	-1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	43	43	0	1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	889895	770438	755585	-14854	-134310
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7918	7818	7289	-529	-629
2.6 अन्य बैंक	50602	41971	42182	212	-8420
2.7 अन्य	576685	688303	822482	134179	245797
3 अन्य देयताएं	2002933	2898169	3045272	147103	1042339
कुल देयताएं / आस्तियां	7092482	8349055	8633159	284105	1540677
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4671954	5122121	5205254	83134	533300
2 सोना	600378	1067327	1131929	64602	531551
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1288414	1943590	2007684	64094	719270
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	0	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	20495	20162	16817	-3345	-3678
4.3 नाबाई	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	354098	885	76369	75484	-277729
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	133690	163118	163353	235	29663
5 खरीदे और धुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	21388	29789	29689	-99	8301

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	जनवरी 23, 2026 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6523645	709413	150343	8053	811504	41087	1096939	79856
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5176327	562885	82784	2367	325493	-4672	539803	24994
1.2 स्वर्ण	1131929	123088	64602	5635	463766	44912	531550	53437
1.3 विशेष आहरण अधिकार	172303	18737	2336	33	17013	567	18348	876
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	43086	4703	621	18	5231	279	7238	548

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसई मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

जनवरी 31, 2026 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 764046 करोड़	2026															
	जनवरी 16	जनवरी 17	जनवरी 18	जनवरी 19	जनवरी 20	जनवरी 21	जनवरी 22	जनवरी 23	जनवरी 24	जनवरी 25	जनवरी 26	जनवरी 27	जनवरी 28	जनवरी 29	जनवरी 30	जनवरी 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	776185	767220	769613	777700	765390	765267	750725	761417	774749	772777	767783	758810	756069	760379		
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.6	100.4	100.7	101.8	100.2	100.2	98.3	99.7	101.4	101.1	100.5	99.3	99.0	99.5		

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	जनवरी 15, 2026 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दूर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	334595	-5516	-22767	25181	8948	62891
1.2 बैंकों से उधार	80441	-3569	-38965	-31535	-37516	-63023
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	33029	209	-44392	3113	-41687	4969
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	24499894	-357599	1675948	1919293	2166340	2348720
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.4	8.2	8.5	10.8	10.6
2.1.1 मांग	2990792	-283930	34327	292743	212780	512612
2.1.2 मीयादी	21509103	-73668	1641621	1626550	1953560	1836108
2.2 उधारियां	921543	95965	145505	6295	97432	-1905
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1062922	-5101	45423	1291	110636	80071
3 रिज़र्व बैंक से उधार	32336	-136638	69933	-279130	60006	-260313
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	796313	234	-9130	-167976	5543	-215473
4.1 उपलब्ध नकदी	78479	-4983	-8249	-3395	-5747	-2706
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	717834	5217	-881	-164581	11290	-212768
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	280252	8589	5774	64450	9671	76150
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	32229	-3868	-387	6391	191	20261
5.3 बैंकों को अग्रिम	32218	-3074	-9183	-7285	-3035	-6967
5.4 अन्य आस्तियां	67909	-1299	-59315	556	-36843	11800
6 निवेश	6807967	-77016	521868	110040	622133	179541
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.1	8.5	1.6	10.4	2.7
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6807467	-77016	522304	110169	622348	179553
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	501	1	-436	-129	-214	-12
7 बैंक ऋण	20132365	-188423	1367230	1888393	1829468	2332971
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.9	8.3	10.4	11.5	13.1
7 क.1 खाद्य ऋण	88169	197	34642	51638	13754	30446
7 क.2 खाद्येतर ऋण	20044196	-188619	1332588	1836755	1815714	2302525
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	19734276	-180846	1341140	1824425	1788530	2258833
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	95391	-1549	13939	20428	22696	20985
7 ख.3 भुनाए गए	266853	-4773	14267	45794	19290	55228
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	12779	-837	-711	-2343	-980	-2922
7 ख.5 भुनाए गए	23066	-417	-1405	89	-68	847

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को वैकल्पिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समाप्त पखवाड़ा #	2025		2026	
	जनवरी 10	दिसंबर 31	जनवरी 15	
	1	2	3	
अनुपात				
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.57	3.20	3.25	
ऋण-जमाराशि अनुपात	80.35	81.75	82.17	
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	81.58	91.21	98.39	
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.92	27.70	27.79	
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	31.14	8.22	5.73	
यद/समाप्त सप्ताह	2025		2026	
	जनवरी 24	दिसंबर 26	जनवरी 02	जनवरी 09
	1	2	3	4
				जनवरी 16
				5
				जनवरी 23
				6
अनुपात				
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00
दरें				
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.25	5.25	5.25
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.00	5.00	5.00
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.50	5.50	5.50
बैंक दर	6.75	5.50	5.50	5.50
आधार दर	9.10/10.40	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/7.95	7.70/7.95	7.70/7.95
सांविधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	6.00/6.50	6.00/6.50
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत)	6.57	5.43	5.43	5.37
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.61	5.26	..	5.31
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.71	5.48	..	5.54
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.68	5.54	..	5.58
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.75	6.65	6.69	6.71
एफबीआईएल® संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया				
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	86.29	89.83	90.12	90.14
भारतीय रुपया-यूरो स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.21	105.85	105.84	105.01
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	2.90	5.24	2.57	3.09
3-माह	2.89	3.52	2.90	3.38
6-माह	2.43	3.08	2.55	2.95

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।
@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।
1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को वैकल्पिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025	2026	पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2025		2026	
	मार्च 31	जनवरी 15*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	29502905	-295639	-1.0	1771650	7.1	2216316	8.1	2381789	9.8	2791395	10.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3889772	61412	1.6	86943	2.5	259021	7.1	185348	5.6	392554	11.2
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3137965	-284693	-8.3	32397	1.3	297942	10.5	211277	8.8	518680	19.8
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	22358589	-73938	-0.3	1643221	8.7	1656081	8.0	1960004	10.6	1867208	9.1
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	116579	1580	1.4	9089	9.6	3272	2.9	25160	32.1	12953	12.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8835589	84904	1.0	434796	5.7	324764	3.8	713240	9.7	797222	9.9
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1707315	161754		-88503		199210		88673		602605	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7128274	-76850	-1.1	523299	8.2	125555	1.8	624567	9.9	194617	2.8
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	20958810	-185980	-0.9	1385787	8.1	1890681	9.9	1871988	11.2	2370191	12.8
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	16954	-3368		-3894		-21292		5285		6441	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	20941856	-182612	-0.9	1389681	8.1	1911973	10.0	1866703	11.2	2363750	12.7
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6649134	63662	1.0	134965	2.4	500607	8.1	419668	7.9	946666	16.6
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	39895	0	0	2251	6.7	3264	8.9	3086	9.5	4212	11.8
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6980523	258225	3.8	186149	3.4	502999	7.8	626192	12.5	1326897	23.5
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2839420	69926	2.5	120614	6.7	691994	32.2	170522	9.8	928673	48.6

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

^: 31 दिसंबर 2025 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन के साथ, मुद्रा आपूर्ति के आंकड़े माह की 15वीं और अंतिम तारीख के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025	2026	पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2025		2026	
	मार्च 31	जनवरी 15*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4862647	63512	1.3	50891	1.1	33405	0.7	214088	4.8	180311	3.9
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3979951	56428	1.4	78506	2.2	255503	6.9	179468	5.3	389984	10.9
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	766118	5503	0.7	-36704	-3.6	-225371	-22.7	9460	1.0	-222627	-22.5
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	116579	1580	1.4	9089	9.6	3272	2.9	25160	32.1	12953	12.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1707315	161754		-88503		199210		88673		602605	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1687836	158526		-96523		212376		90140		597704	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-107228	-91978		273227		11787		50483		-334309	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-124182	-88610		277121		33079		45198		-340750	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	6062086	63662	1.1	-15471	-0.3	511139	9.2	242368	4.9	836475	16.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	39895			2251	6.7	3264	8.9	3086	9.5	4212	11.8
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2839420	69926	2.5	120614	6.7	691994	32.2	170522	9.8	928673	48.6

^: 31 दिसंबर 2025 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के अंतर्गत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन होने के कारण आरक्षित मुद्रा के संबंध में ये आंकड़े महीने के 15वें एवम अंतिम दिन के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुद्रत)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनवरी 19, 2026	-	-	58740	-	231	154012	-	-	-	-95041
जनवरी 20, 2026	-	-	-	-	1206	144630	-625	-	-	-144049
जनवरी 21, 2026	-	-	26535	-	1730	94136	699	-	4960	-60212
जनवरी 22, 2026	-	-	50010	-	147	158854	-	-	4785	-103912
जनवरी 23, 2026	-	-	-	-	963	154409	-	-	52910	-100536
जनवरी 24, 2026	-	-	-	-	65	136770	-	-	-	-136705
जनवरी 25, 2026	-	-	-	-	15	135896	-	-	-	-135881

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024	2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	195.4	197.9	198.0	0.1	3.1	1.3
1.1 ग्रामीण	198.4	199.6	199.9	0.2	3.1	0.8
1.2 शहरी	192.0	195.9	195.9	0.0	3.2	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	143.7	148.2	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	155.7	155.9	157.0	0.7	1.4	0.8
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	193.8	192.1	194.2	1.1	4.7	0.2
3.2 ईंधन और बिजली	151.8	146.5	148.3	1.2	-2.5	-2.3
3.3 विनिर्मित उत्पाद	143.0	145.0	145.6	0.4	0.7	1.8

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा*	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 31, 2025	568136	88512	5.25 - 6.87
जनवरी 15, 2026	574586	40189	5.25 - 6.70

*बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत पखवाड़े की परिभाषा में बदलाव के साथ, जमा प्रमाणपत्रों के लिए डेटा 16 से 31 दिसंबर 2025 और 1 से 15 जनवरी 2026 के लिए प्रकाशित किया गया है।

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 31, 2025	451053	59006	5.99 - 13.53
जनवरी 15, 2026	453839	26659	5.92 - 13.42

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	जनवरी 24, 2025	जनवरी 16, 2026	जनवरी 23, 2026
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	20631	25176	27303
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1396	10963	2055
3 त्रिपक्षीय रेपो	649147	958361	825908
4 बाजार रेपो	525850	796414	631318
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	6711	17235	18256

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

जनवरी 23, 2026 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	9423	13956	92335	195135
182-दिवसीय	41116	60364	7264	194564
364-दिवसीय	62136	96615	41257	351557
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (जनवरी 23, 2026 तक)	2024-25 (जनवरी 24, 2025 तक)	2024-25	2025-26 (जनवरी 23, 2026 तक)	2024-25 (जनवरी 24, 2025 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1242000	1211697	1400697	846334	850275	1039275
2. राज्य सरकारें	823268	693820	1073310	553356	472615	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।